

BCC:ISD:114:16:104

19.05.2022

The Vice-President, B S E Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai – 400 001 BSE CODE-532134	The Vice-President, National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051 CODE-BANKBARODA
--	--



Dear Sir / Madam,

Re: Disclosure under Regulation 30 (LODR)


We enclose Newspaper Notice to shareholders published in Business Standard (English + Hindi) on 18.05.2022, for transfer of unpaid dividend of FY2014-15 to IEPF.

We request you to take note of the above under SEBI (LODR) Regulations, 2015 and upload the information on your website.


Yours faithfully,


P K Agarwal
Company Secretary


➤ Newspaper Notice Published in Business Standard (English) on 18.05.2022:



www.bankofbaroda.in



NOTICE TO SHAREHOLDERS OF BANK OF BARODA

Pursuant to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the **unclaimed /unpaid dividend on the Bank's shares declared during the F.Y 2014-15 is falling due for transfer to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account** as follows:

Bank	Due date for transfer of unpaid dividend of F.Y 2014-15
Bank of Baroda	29 th July 2022
e-Dena Bank*	01 st August 2022
e-Vijaya Bank*	27 th July 2022

*amalgamated with Bank of Baroda w.e.f. 01.04.2019

The Bank has been requesting regularly in notices / communications to their shareholders, to claim their unpaid dividends and convert their physical holdings to demat.

We once again request Shareholders of the Bank, who have not claimed their dividend from the year 2014-15 onwards, to submit their claims before due date of transfer to IEPF, to our Registrar & Transfer Agent (RTA) at M/s KFin Technologies Ltd. (Unit: Bank of Baroda), Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad- 500032, tel: 1-800-309-4001, email at einward.ris@kfintech.com or investorservices@bankofbaroda.com so that their claims get settled/paid within time.

Shareholders holding share certificates are requested again to dematerialise their share certificates at the earliest. In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2022/8 dated 25th January 2022, with effect from January 25, 2022, no transfer, transmission, transposition, issue of duplicate share certificate, etc. will be effected on the share certificates held by the shareholders unless it is in dematerialised form.

Shareholders are also requested to furnish their PAN, KYC and Nomination details (if not furnished earlier) in compliance of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated 3rd November 2021 and Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/687 dated 14th December 2021 to our registrar at KFin Technologies Limited (Unit - Bank of Baroda), Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500032 (email - einward.ris@kfintech.com).

In compliance of recent guidelines issued by Department of Financial Services (DFS), GoI and relevant provisions of Companies Act, 2013, all the shares in respect of which dividend has remained unpaid / unclaimed for seven consecutive years or more and have been transferred to IEPF are also liable for transfer to IEPF. Hence, **the Bank is in the process of transferring unclaimed shares to IEPF of those shareholders who have not claimed dividend for past seven years and more, for which individual notice is issued to the eligible shareholders.** Please note that all benefits accruing on such shares in future shall also be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority and no claim shall lie against the Bank in respect of the unclaimed dividend amount and shares so transferred to IEPF.


Formats / Checklist for physical shareholders of Bank are available at <https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/procedure-formats-for-physical-shareholders-of-bank> and that of KFin at <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx>

Place: Mumbai
Date: 18.05.2022

For Bank of Baroda
P. K. Agarwal
Company Secretary


24/22-23

➤ Newspaper Notice Published in Business Standard (English) on 18.05.2022:



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

www.bankofbaroda.in



बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों को नोटिस

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10बी के अनुसरण में बैंक के शेयरों पर वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान घोषित किए गए अदावी/ अदत्त लाभांश निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) को अंतरित करने हेतु निम्नानुसार देय हो रहे हैं :

बैंक	वित्त वर्ष 2014-15 के अदत्त लाभांश के अंतरण हेतु नियत तारीख
बैंक ऑफ़ बड़ौदा	29 जुलाई 2022
ई-देना बैंक*	01 अगस्त 2022
ई-विजया बैंक*	27 जुलाई 2022

*दिनांक 01.04.2019 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ सम्मेलित

बैंक अपने शेयरधारकों को नियमित रूप से नोटिस/ संश्लेषणों के माध्यम से उनके अदत्त लाभांश का दावा करने और अपनी भौतिक शेयरधारिता को डीमैट में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध करता रहा है।

हम पुनः बैंक के शेयरधारकों, जिन्होंने वर्ष 2014-15 और उसके बाद से अपने लाभांश के लिए दावा नहीं किया है, से अनुरोध करते हैं कि आईईपीएफ को अंतरण की नियत तारीख से पहले अपने दावे हमारे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) को मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी लि. (यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं 31 और 32, गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद-500032, टेली: 1-800-309-4001, ई-मेल einward.ris@kfintech.com या investorservices@bankofbaroda.com पर प्रस्तुत करें ताकि उनके दावों का निर्धारित समय-सीमा में निपटान/ भुगतान किया जा सके।

शेयर प्रमाणपत्र धारक शेयरधारकों से पुनः अनुरोध है कि अपने शेयर प्रमाणपत्रों को तत्काल डीमैटरलाइज़ करें. सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के अनुसार दिनांक 25 जनवरी, 2022 से शेयरधारकों द्वारा धारित शेयर प्रमाणपत्रों में कोई ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजीशन, डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करना आदि तब तक प्रभावी नहीं किया जाएगा जब तक कि वह डीमैट के रूप में न हो।

शेयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि सेबी के परिपत्र सं. सेबी/ एचओ/ एमआईआरएसडी/ एमआई आरएसडी आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 3 नवंबर, 2021 और परिपत्र सं. सेबी/ एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडीआरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/687 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 के अनुपालन में अपना पैन्, केवाईसी और नामांकन विवरण केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड (यूनिट - बैंक ऑफ़ बड़ौदा), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500032 पर हमारे रजिस्ट्रार को प्रेषित करें।

वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में ऐसे सभी शेयर, जिनसे संबंधित लाभांश पिछले सात वर्षों या उससे अधिक समय से अदत्त/ अदावी है और आईईपीएफ को ट्रांसफर कर दिया गया है, भी आईईपीएफ में ट्रांसफर किए जाने हैं. अतः, बैंक ऐसे शेयरधारकों के जिन्होंने पिछले सात वर्षों या उससे अधिक समय से लाभांश का दावा नहीं किया है और जिसके लिए मात्र शेयरधारकों को व्यक्तिगत नोटिस जारी किए गए हैं, के अदावी शेयरों को आईईपीएफ में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में है. कृपया नोट करें कि भविष्य में ऐसे शेयरों पर उपरिष्ठ सभी लाभ भी आईईपीएफ प्राधिकारी के डीमैट खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे तथा आईईपीएफ को ट्रांसफर अदावी लाभांश राशि और शेयरों से संबंधित किसी भी दावे के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

भौतिक शेयरधारकों के लिए प्रारूप/ जांचसूची बैंक <https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/procedure-formats-for-physical-shareholders-of-bank> और केफिन <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx> की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

स्थान: मुंबई
दिनांक: 18.05.2022

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा
पी. के. अग्रवाल
कंपनी सचिव 24/22-23